



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2004/पौष 11, 1925

No. 1]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2004/PAUSA 11, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 1 जनवरी, 2004

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अधीन भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध-परिषद् के
अधिक्रमण की कालावधि को बढ़ाते हुए आदेश

फा. सं. भाप्रविबो/विधि/24611/03.—तारीख 3 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. 5(अ) (उक्त अधिसूचना) द्वारा भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध-परिषद् को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा 3 जनवरी 2003 से एक वर्ष की कालावधि के लिए अतिरिक्त किया गया था और श्री जय प्रकाश वर्मा को प्रबंध-परिषद् की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने और पालन करने के लिए प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया था।

एक्सचेंज की समस्याओं को सुधारने के लिए प्रशासक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से कुछ पर उन्हें दूर करने के लिए अतिरिक्त अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित होगी, आगे एक्सचेंज की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के लिए और नए प्रबंध-परिषद् के निर्वाचन और गठन की प्रक्रिया तथा अपरस्मरीकरण (डीम्युचुरलाइजेशन) की प्रक्रिया को भी पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि उक्त अधिसूचना में आदेश दी गई प्रबंध-परिषद् के अधिक्रमण की कालावधि को छह मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मेरा विचार है कि कार्यभार संभालने में प्रबंध-परिषद् के लिए स्थिति सहायक नहीं है।

पूर्वोक्त कारणों से, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी तारीख 30 जुलाई, 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. 573 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4(3) के अधीन भी मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में आदेश दिये गए भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध-परिषद् के अधिक्रमण को एतद्वारा 3 जनवरी, 2004 से छह मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाता है। श्री जय प्रकाश वर्मा आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) प्रकाशक के तौर पर बने रहेंगे और प्रबंध-परिषद् की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेंगे, बढ़ायी गई कालावधि के दौरान, उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार।

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/69 जैड बी/2003/असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st January, 2004

Order under Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 extending the period of supersession of the Council of Management of Bhubaneswar Stock Exchange

F. No. SEBI/LE/24611/03.— Vide Notification No. 5(E) dated January 3, 2003 (the said notification) the Council of Management of the Bhubaneswar Stock Exchange was superseded by the Securities and Exchange Board of India for a period of one year with effect from January 3, 2003 and Shri Jai Prakash Verma was appointed as the Administrator to exercise and perform all the powers and duties of the Council of Management.

In view of the various measures taken by the Administrator to rectify the problems of the Exchange, some of which would require sustained follow up action to resolve them to further streamline the functioning of the Exchange and in view of the additional time required to complete the process of election and constitution of the new Council of Management as also the process of demutualisation, I am of the considered view that the period of supersession of the Council of Management ordered in the said notification is necessary to be extended for a further period of six months. Moreover, I am of the considered view that the situation is not yet conducive for the Council of Management to take over.

In view of the aforesaid reasons, in exercise of the powers conferred upon me under Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with the Notification No. S.O. 573 dated July 30, 1992 issued by Central Government and also Section 4 (3) of Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the supersession of the Council of Management of the Bhubaneswar Stock Exchange as ordered in the said notification is hereby extended for a further period of six months with effect from January 3, 2004. Shri Jai Prakash Verma, IPS (Retd.) shall continue as the Administrator and exercise and perform all the powers and duties of the Council of Management, during the extended period, in terms of the said notification.

G. N. BAJPAI, Chairman

[ADVT-III/IV/69 ZB/2003/Exy.]